



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28—मई 4, 2007 (वैशाख 8, 1929)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28—MAY 4, 2007 (VAISAKHA 8, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2007

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.19/सीएमडी/2007--राष्ट्रीय आवास बैंक संतुष्ट है कि, सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात्--

अध्याय II में - आवास वित्त कम्पनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 14, सार्वजनिक जमा स्वीकार करना, के बाद एक नया अनुच्छेद 14ए के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात्

“जमाकर्ताओं के हित में चल प्रभार का सृजन

14ए - सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार/धारित करने वाली सभी आवास वित्त कम्पनियां राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी की उप-धाराओं (1) एवं (2) के अनुसार उनके द्वारा निवेशित परिसम्पत्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के हित में रा.आ.बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित पद्धति के अनुसार चल प्रभार का सृजन करेंगी।”

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2007

संख्या: एन-15/13/7/4/2006-यो.एच.वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16 मार्च, 2007 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा बंगलौर कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम व नगरपालिका सीमाएँ	होबली	तालुक	जिला
1.	2.	3.	4.	5.
1.	सरजापुरा	सरजापुरा	अनेकल	बेंगलूर
2.	बिल्लापुरा	सरजापुरा	अनेकल	बेंगलूर
3.	बुरगुटे	सरजापुरा	अनेकल	बेंगलूर
4.	अनेकल	कसाबा	अनेकल	बेंगलूर
5.	कल्लुबालु	जिगनी	अनेकल	बेंगलूर
6.	सुरगजवकनहल्ली	कसाबा	अनेकल	बेंगलूर
7.	कमसांद्रा अग्रहारा	कसाबा	अनेकल	बेंगलूर
8.	कावल होसाहल्ली	जिगनी	अनेकल	बेंगलूर

9.	कैलासनहल्ली	जिगनी	अनेकल	बेंगलूर
10.	यारदनहल्ली	जिगनी	अनेकल	बेंगलूर
11.	यादवनहल्ली	अत्तिबेले	अनेकल	बेंगलूर
12.	चिक्कनागमंगला	सरजापुरा	अनेकल	बेंगलूर
13.	करिओबनहल्ली	यशवंतपुर	बेंगलूर उत्तर	बेंगलूर
14.	सिंगेहल्ली	यशवंतपुर	बेंगलूर उत्तर	बेंगलूर
15.	कडाबगेरे	दासनपुरा	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
16.	नागदेवनहल्ली	केंगेरी	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
17.	वसंतपुर	उत्तरहल्ली	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
18.	अरेहल्ली	उत्तरहल्ली	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
19.	अगारा	बेगूर	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
20.	ऐबूर	बेगूर	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
21.	बिकासीपुरा	उत्तरहल्ली	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
22.	गनेकल	उत्तरहल्ली	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
23.	चेन्नेन्नाहल्ली	उत्तरहल्ली	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
24.	चेन्नासांद्रा	उत्तरहल्ली	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
25.	वज्रहल्ली	उत्तरहल्ली	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
26.	तालघट्टापुरा	उत्तरहल्ली	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
27.	चिक्कसंद्रा	यशवंतपुर	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
28.	सिद्दहल्ली	यशवंतपुर	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
29.	ज्ञानज्योति नगर	केंगेरी	बेंगलूर दक्षिण	बेंगलूर
30.	सोनप्पन हल्ली	चिक्कजाला	बेंगलूर उत्तर	बेंगलूर
31.	अनंतपुर	चिक्कजाला	बेंगलूर उत्तर	बेंगलूर
32.	मैलप्पन हल्ली	हेसरघट्ट	बेंगलूर उत्तर	बेंगलूर
33.	अडगान हल्ली	हेसरघट्ट	बेंगलूर उत्तर	बेंगलूर
34.	होरमावु	के.आर. पुरम	बेंगलूर पूर्व	बेंगलूर

35.	कुंदला हल्ली	के.आर. पुरम	बेंगलूर पूर्व	बेंगलूर
36.	मारत हल्ली	वर्तुर	बेंगलूर पूर्व	बेंगलूर
37.	तबर हल्ली	वर्तुर	बेंगलूर पूर्व	बेंगलूर
38.	रामगौडन हल्ली	वर्तुर	बेंगलूर पूर्व	बेंगलूर
39.	मुन्निकोला	वर्तुर	बेंगलूर पूर्व	बेंगलूर
40.	सिद्दापुर	वर्तुर	बेंगलूर पूर्व	बेंगलूर
41.	मिट्टिगान हल्ली	बिंदर हल्ली	बेंगलूर पूर्व	बेंगलूर
42.	बसवनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
43.	मैलानहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
44.	कन्नैगौडनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
45.	हैडालू गौव	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
46.	अर्जुनबेट्टहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
47.	बैरसेट्टीहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
48.	गुट्टेपाल्या	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
49.	कुलुवनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
50.	तिण्णगौडनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
51.	टप्पद बैगूर	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
52.	हनुमंतपुरा	सोपूर	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
53.	येडीहल्ली	सोपूर	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
54.	शब्रसपेट के.आई.ए.डी.बी.	सोपूर	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
55.	दांडुडरी	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
56.	गंगाधरपाल्या	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
57.	बयनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
58.	बुदीहाल	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
59.	बोम्मनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण

60.	केंचनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
61.	विश्वेवपुरा	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
62.	देगनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
63.	भावीकरे	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
64.	मल्लरबेनेवाडी	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
65.	कैपनलिंगनहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
66.	येंटगानहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
67.	बिन्नमंगला	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
68.	दानोजीपात्या	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
69.	तोणचिनकुप्पा	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
70.	हनुमनपात्या	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
71.	चिक्कगोल्लरहट्टी	दासनपुर	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
72.	नागशेट्टीहल्ली	कसाबा	नेलमंगला	बेंगलूर ग्रामीण
73.	टी. बूदीहाल	रूपनवाडी	बेल्लारी	बेल्लारी
74.	सिरूवारा	मोका	बेल्लारी	बेल्लारी
75.	वेणी वीरापुर	बेल्लारी	बेल्लारी	बेल्लारी
76.	बी. गोनेहालु	बेल्लारी	बेल्लारी	बेल्लारी

आर. के. शुक्ला
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/11/2/2007-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने **16 मार्च, 2007** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-**1955** में निर्दिष्ट

२००७-०४-१०

चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	जी.एच.ओ.	352	पठानकोट	गुरदासपुर
2.	काहनपुर	349	पठानकोट	गुरदासपुर
3.	हलेड़	352	पठानकोट	गुरदासपुर
4.	चाचेली	354	पठानकोट	गुरदासपुर
5.	रानीपुर	356	पठानकोट	गुरदासपुर
6.	भंवल	227	पठानकोट	गुरदासपुर
7.	अज़ीजपुर	226	पठानकोट	गुरदासपुर
8.	कुठेर	375	पठानकोट	गुरदासपुर
9.	अखवाना	352	पठानकोट	गुरदासपुर

आर. के. शुक्ला
निदेशक (यो. एवं वि.)

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2007

फा.सं. 2(2)/2005-सीपी - निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 56) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, 01 अप्रैल, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 7 नागालैंड राज्य में लागू होगी।

अमिताभ वर्मा
संयुक्त सचिव

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 13 April 2007

Direction No. NHB.HFC.DIR. 19/CMD/2007.—

The National Housing Bank is satisfied that, in the public interest it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

In chapter II- Acceptance of Public Deposits, after paragraph 14, of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 a new paragraph as 14A shall be inserted *viz.*

"Creation of Floating Charge in favour of the Depositors:

14A. All Housing Finance Companies accepting/holding public deposits shall create floating charge on the assets invested by them in terms of sub-sections (1) and (2) of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 in favour of their depositors in a manner as may be prescribed by NHB from time to time, in this behalf."

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th April 2007

No. N-15/13/7/4/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16th March, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely

Sl. No.	Name of the Revenue Village or Municipal Limits	Hobli	Taluk	District
1.	Sarjapura	Sarjapura	Anekal	Bangalore
2.	Billapura	Sarjapura	Anekal	Bangalore
3.	Buragunte	Sarjapura	Anekal	Bangalore
4.	Anekal	Kasaba	Anekal	Bangalore
5.	Kallubalu	Jigani	Anekal	Bangalore
6.	Suragajakkanahalli	Kasaba	Anekal	Bangalore
7.	Kammāsandra Agrahara	Kasaba	Anekal	Bangalore
8.	Kaval Hosahalli	Jigani	Anekal	Bangalore
9.	Kylasanahalli	Jigani	Anekal	Bangalore
10.	Yarandahalli	Jigani	Anekal	Bangalore
11.	Yadavanahalli	Attibele	Anekal	Bangalore
12.	Chikkanagamangala	Sarjapura	Anekal	Bangalore
13.	Kariobanahalli	Yeshwantpur	Bangalore North	Bangalore
14.	Seegehalli	Yeshwantpur	Bangalore North	Bangalore
15.	Kadabagere	Dasanapura	Bangalore North	Bangalore
16.	Nagadevanhalli	Kangeri	Bangalore South	Bangalore
17.	Vasanthapura	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
18.	Arehalli	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore

19.	Agara	Begur	Bangalore South	Bangalore
20.	Ibur	Begur	Bangalore South	Bangalore
21.	Bikasipura	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
22.	Ganakal	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
23.	Channenahalli	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
24.	Channasandra	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
25.	Vajrahalli	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
26.	Talaghattapura	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
27.	Chikkasandra	Yeshwantpur	Bangalore North	Bangalore
28.	Siddahalli	Yeshwantpur	Bangalore North	Bangalore
29.	Gnana Jyothi Nagar	Kengeri	Bangalore South	Bangalore
30.	Sonappanna Halli	Chikkajala	Bangalore North	Bangalore
31.	Ananthapura	Chikkajala	Bangalore North	Bangalore
32.	Mylappanahalli	Hesaraghatta	Bangalore North	Bangalore
33.	Adaganhalli	Hesaraghatta	Bangalore North	Bangalore
34.	Horamavu	K.R. Puram	Bangalore East	Bangalore
35.	Kundalahalli	K.R. Puram	Bangalore East	Bangalore
36.	Marathahalli	Varthur	Bangalore East	Bangalore
37.	Tabarahalli	Varthur	Bangalore East	Bangalore
38.	Ramagondanahalli	Varthur	Bangalore East	Bangalore
39.	Munnekolala	Varthur	Bangalore East	Bangalore
40.	Siddapura	Varthur	Bangalore East	Bangalore
41.	Mittiganahalli	Bidarahalli	Bangalore East	Bangalore
42.	Basavanahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
43.	Mylanahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
44.	Kannegowdanahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
45.	Hydalu Village	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
46.	Arjunabettahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
47.	Byrashettyhalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
48.	Guttepalya	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
49.	Kuluvanahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
50.	Thippagondanahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
51.	Theppada Begur	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural

3-32/07

52.	Hanumanthapura	Somapura	Nelamangala	Bangalore Rural
53.	Yedehalli	Somapura	Nelamangala	Bangalore Rural
54.	Dobaspet, KIADB, I/A	Somapura	Nelamangala	Bangalore Rural
55.	Dodderi	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
56.	Gangadharpalya	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
57.	Byranahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
58.	Budihalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
59.	Bommanahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
60.	Kenchanahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
61.	Visweswapura	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
62.	Deganahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
63.	Bhavikere	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
64.	Mallarabenewadi	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
65.	Kempalinganahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
66.	Yenteganahalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
67.	Binnamangala	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
68.	Danojipalya	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
69.	Thonachinakuppa	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
70.	Hanumanapalya	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
71.	Chikkagollarhatti	Dasanapura	Nelamangala	Bangalore Rural
72.	Nagashettyhalli	Kasaba	Nelamangala	Bangalore Rural
73.	T. Boodihal	Rupanwadi	Bellary	Bellary
74.	Siruvara	Moka	Bellary	Bellary
75.	Veni Veerapur	Bellary	Bellary	Bellary
76.	B. Gonehalu	Bellary	Bellary	Bellary

R. K. SHUKLA
Director (P&D)

No. N-15/13/11/2/2007-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16th March 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :-

Sl. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	GHO	352	Pathankot	Gurdaspur
2.	Kahanpur	349	Pathankot	Gurdaspur
3.	Halerh	352	Pathankot	Gurdaspur
4.	Chachelli	354	Pathankot	Gurdaspur
5.	Ranipur	356	Pathankot	Gurdaspur
6.	Bhanwal	227	Pathankot	Gurdaspur
7.	Azizpur	226	Pathankot	Gurdaspur
8.	Kuther	375	Pathankot	Gurdaspur
9.	Akhwana	352	Pathankot	Gurdaspur

R. K. SHUKLA
Director (P&D)

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 30th March 2007

F.No.2(2)/2005-CP - In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 1 of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 (56 of 1968), the Central Government hereby appoints the 1st April, 2007 as the date on which Section 7 of the said Act shall come into force in the State of Nagaland.

AMITABH VERMA
Jt. Secy.